



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 527] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 28, 1981/अग्राहायण 7, 1903
No. 527] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 28, 1981/AGRAHAYANA 7, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1981

का०आ० 832 (अ)/18-ग/1 दि०आ० ००/81 -- भारत सरकार के
अल्पपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश
सं० का०आ० 727 (अ)/18क/उ०वि०वि०अ०/72, तारीख 29 नवम्बर
1972 द्वारा (जिसे हमने हमारे पञ्चात उक्त आदेश कड़ा गया है)
संसर्ग कलेक्टर्स एण्ड कर्माजर्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम
का प्रबन्ध, 28 नवम्बर, 1977 तक की जिसके अन्तर्गत यह तारीख
भी है, अवधि के लिए ग्रहण किया गया था, और इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन
कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड कलकत्ता को "प्राधिकृत नियन्त्रक"
के रूप में नियुक्त किया गया था,

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)
के आदेश सं० का०आ० 787 (अ)/18क/उ०वि०वि०अ०/77, तारीख
28 नवम्बर, 1977 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 28 नवम्बर, 1979
तक जिसके अन्तर्गत वह तारीख भी है, दो वर्ष की और अवधि के लिए
बढ़ा दी गई थी;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)
के आदेश सं० का०आ० 757 (अ)/18क/उ०वि०वि०अ०/79 तारीख
26 नवम्बर 1979 द्वारा उक्त आदेश की अवधि, 28 नवम्बर, 1980

तक जिसके अन्तर्गत वह तारीख भी है एक वर्ष की और अवधि के लिए
बढ़ा दी गई थी,

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)
के आदेश सं० 926 (अ) तारीख 28 नवम्बर, 1980 द्वारा उक्त आदेश
की अवधि, 28 मई, 1981 तक जिसके अन्तर्गत वह तारीख भी है, छह
मास की और अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी,

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)
के आदेश सं० का०आ० 391 (अ)/18क/उ०वि०वि०अ०/81 तारीख
28 मई, 1981 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 28 नवम्बर, 1981
तक जिसके अन्तर्गत वह तारीख भी है, छह मास की और अवधि के लिए
बढ़ाई गई थी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लाकूट में यह समीचीन
है कि उक्त आदेश एक वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम,
1951 (1951 का 65) की धारा 18 की उपधारा (2) के परन्तुक
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, यह निदेश देती है कि उक्त
आदेश 28 नवम्बर, 1982 तक जिसके अन्तर्गत वह तारीख भी है, की
एक वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[सं० का० 2(9)/80-सी०यु०एस०

चन्द्र किशोर मोदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 28th November, 1981

S.O. 832(E)/18A/IDRA/81.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 727(E)/18A/IDRA/72, dated the 29th November, 1972 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the Industrial undertaking known as Messrs Containers and Closures Limited, Calcutta had been taken over for a period upto and inclusive of the 28th November, 1977, and the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta was appointed as "Authorised Controller";

And, whereas, by the Order of the Government of India, in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 787(E)/18A/IDRA/77, dated the 28th November, 1977, the duration of the said Order was extended for a further period of two years upto and inclusive of the 28th November, 1979 ;

And, whereas, by the Order of the Government of India, in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 757(E)/18A/IDRA/79, dated the 26th November, 1979, the duration of the said Order was extended for a further period of one year upto and inclusive of the 28th November, 1980 ;

And, whereas, by the Order of the Government of India, in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 926(E) dated the 28th November, 1980, the duration of the said Order was extended for a further period of six months upto and inclusive of the 28th May, 1981 ;

And, whereas, by the Order of the Government of India, in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 391(E)/18A/IDRA/81 dated the 28th May, 1981, the duration of the said Order was extended for a further period of six months upto and inclusive of the 28th November, 1981 ;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period of one year ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of one year upto and inclusive of the 28th November, 1982.

[F. No. 2(9)/80-CUS]

C. K. MODI, Jt. Secy.